



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मई 13—मई 19, 2018, शनिवार/वैशाख 23—वैशाख 29, 1940

No. 10] NEW DELHI, MAY 13—MAY 19, 2018, SATURDAY/ VAISAKHA 23— VAISAKHA 29, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 जिसे(इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 8 (47600-151100 रु.)”.

4. स्तम्भ (11) में, उप-शीर्षक ‘प्रतिनियुक्ति/आमेलन’ के अधीन टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9(6)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 तारीख 1 सितम्बर, 2015 में का.नि.आ. सं. 34 तारीख 19 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 19th May, 2018

S.R.O. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2015 [hereinafter referred to or the said rules], for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

“3. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”

3. In the Schedule to the said rules,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“ Level in pay matrix
(4)
Level 8 (Rs.47600-151100).”

4. in column (11), under sub-heading ‘Deputation/Absorption’ Note-2 shall be omitted.

[F. No. 9(6)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rules dated the 1st September, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 34 dated the 19th September, 2015.

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती(संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 में,-

(i) नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर ---- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, को इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा”

(ii) अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 5
(29200-92300 रु.)”;

[फा. सं. 9(3)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 22 द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2009 को प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात संशोधित अधिसूचना, भारत के राजपत्र का.नि.आ. 95, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 द्वारा जारी की गई जिसे भारत के राजपत्र में तारीख 10 नवंबर, 2012 को प्रकाशित किया गया था, का.नि.आ. सं. 53 तारीख 11 अगस्त, 2014 भारत के राजपत्र में तारीख 24 अगस्त, 2014 को प्रकाशित किया गया था और का.नि.आ. 23 तारीख 3 मई, 2016 भारत के राजपत्र में तारीख 21 मई, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 19th May, 2018

S.R.O. 29.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009,-

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules”.

(ii) in the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“ Level in Pay Matrix
(4)
Level 5 (Rs.29200-92300)”;

[F. No. 9(3)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rules dated the 15th September, 2009 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 22 on the 26th day of September, 2009. Subsequently amended vide notification S.R.O. 95, dated the 30th October, 2012 published in the Gazette of India on 10th day of November, 2012, S.R.O. 53 dated the 11th August, 2014 published in Gazette of India on dated the 24th day of August, 2014, S.R.O.23 dated the 3rd May, 2016 published in Gazette of India on dated the 21st May, 2016.

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

का.नि.आ. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 में, (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होंगे, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

- उक्त नियमों, की अनुसूची के, स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, स्तम्भ और प्रविष्टियां स्तम्भ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4 (25500-81100 रु.)”

[फा. सं. 9(9)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 तारीख 06 मई, 2011 में का.नि.आ. सं. 33, तारीख 21 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th May, 2018

S.R.O. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”

3. In the Schedule to the said rules, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“ Level in pay matrix
(4)
Level 4 (Rs.25500- 81100).”.

[F. No. 9(9)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rules dated the 06th May, 2011 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 33 dated the 21st day of May, 2011.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कुमारी सुष्मिता देव और श्री हरीश चन्द्र मीना, लोक सभा के सांसदों की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.नि.आ. 76-ई दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:-

उपर्युक्त अधिसूचना में “धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के तहत” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (14) और (15) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी; नामत:-

“(14) सुश्री सुष्मिता देव, सांसद (लोक सभा) 5 अप्रैल, 2018 से एक वर्ष के लिए निर्वाचितसदस्य।

“(15) श्री हरीश चन्द्र मीना, सांसद (लोक सभा) 5 अप्रैल, 2018 से एक वर्ष के लिए निर्वाचितसदस्य।

[सं 3(11)/2012/ रक्षा (जी एस-6)]

समित दत्ता गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना का.नि.आ. 76 (ई) दिनांक 10.10.1983 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया:-

1. का.नि.आ. सं. 290 दिनांक 18.08.1986
2. का.नि.आ. सं. 154 दिनांक 06.04.1987
3. का.नि.आ. सं. 298 दिनांक 25.09.1987
4. का.नि.आ. सं. 110 दिनांक 28.05.1990
5. का.नि.आ. सं. 140 दिनांक 28.06.1990
6. का.नि.आ. सं. 224 दिनांक 30.09.1991
7. का.नि.आ. सं. 225 दिनांक 30.09.1991

8. का.नि.आ. सं. 183 दिनांक 22.06.1992
9. का.नि.आ. सं. 184 दिनांक 20.05.1993
10. का.नि.आ. सं. 071 दिनांक 08.06.1993
11. का.नि.आ. सं. 099 दिनांक 19.04.1995
12. का.नि.आ. सं. 162 दिनांक 12.09.1996
13. का.नि.आ. सं. 092 दिनांक 19.06.1998
14. का.नि.आ. सं. 125 दिनांक 19.05.2000
15. का.नि.आ. सं. 162 दिनांक 30.08.2001
16. का.नि.आ. सं. 182 दिनांक 27.08.2002
17. का.नि.आ. सं. 119 दिनांक 27.08.2003
18. का.नि.आ. सं. 08 दिनांक 11.01.2005
19. का.नि.आ. सं. 42 दिनांक 20.03.2006
20. का.नि.आ. सं. 58 दिनांक 11.09.2007
21. का.नि.आ. सं. 01 दिनांक 02.01.2009
22. का.नि.आ. सं. 21 दिनांक 18.08.2009
23. का.नि.आ. सं. 36 दिनांक 09.12.2009
24. का.नि.आ. सं. 40 दिनांक 08.09.2010
25. का.नि.आ. सं. 65 दिनांक 29.08.2011
26. का.नि.आ. सं. 84 दिनांक 24.09.2012
27. का.नि.आ. सं. 8 दिनांक 05.01.2015
28. का.नि.आ. सं. 1 दिनांक 31.12.2015
29. का.नि.आ. सं. 25 दिनांक 13.04.2017

New Delhi, the 16th April, 2018

S.R.O. 31.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), Central Government hereby notifies appointment of Ms. Sushmita Dev and Shri Harish Chandra Meena, Members of Parliament (Lok Sabha) as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends notification of Government of India in Ministry of Defence No. SRO 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time as follows, namely:-

In the said notification, under the heading

“under clause (i) sub-section (1) of section 12”

For the entries (14) and (15), the following entries shall be substituted,

namely:-

- | | | |
|------|---|-----------|
| (14) | Ms. Sushmita Dev, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 5 th April, 2018 for one year | ...Member |
| (15) | Shri Harish Chandra Meena, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 5 th April, 2018 for one year | ...Member |

[No. 3(11)/2012/D(GS-VI)]

SAMIT DATTA GUPTA, Under Secy.

Foot Note : The notification was published vide SRO No. 76(E) dated the 10th October, 1983 and subsequently amended vide:-

1. SRO No. 290 dt. 18.08.1986
2. SRO No. 154 dt. 06.04.1987
3. SRO No. 298 dt. 25.09.1987

-
- | | |
|-----|----------------------------|
| 4. | SRO No. 110 dt. 28.05.1990 |
| 5. | SRO No. 140 dt. 28.06.1990 |
| 6. | SRO No. 224 dt. 30.09.1991 |
| 7. | SRO No. 225 dt. 30.09.1991 |
| 8. | SRO No. 183 dt. 22.06.1992 |
| 9. | SRO No. 184 dt. 20.05.1993 |
| 10. | SRO No. 071 dt. 08.06.1993 |
| 11. | SRO No. 099 dt. 19.04.1995 |
| 12. | SRO No. 162 dt. 12.09.1996 |
| 13. | SRO No. 092 dt. 19.06.1998 |
| 14. | SRO No. 125 dt. 19.05.2000 |
| 15. | SRO No. 162 dt. 30.08.2001 |
| 16. | SRO No. 182 dt. 27.08.2002 |
| 17. | SRO No. 119 dt. 27.08.2003 |
| 18. | SRO No. 08 dt. 11.01.2005 |
| 19. | SRO No. 42 dt. 20.03.2006 |
| 20. | SRO No. 58 dt. 11.09.2007 |
| 21. | SRO No. 01 dt. 02.01.2009 |
| 22. | SRO No. 21 dt. 18.08.2009 |
| 23. | SRO No. 36 dt. 09.12.2009 |
| 24. | SRO No. 40 dt. 08.09.2010 |
| 25. | SRO No. 65 dt. 29.08.2011 |
| 26. | SRO No. 84 dt. 24.09.2012 |
| 27. | SRO No. 8 dt. 05.01.2015 |
| 28. | SRO No. 1 dt. 31.12.2015 |
| 29. | SRO No. 25 dt. 13.04.2017 |